CIN: L15142RJ1991PLC006353

SARDA PROTEINS LTD.

Date:04.09.2020

To, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400 001

(BY BSE LISTING CENTRE)

Sub.: Submission of newspaper publication of Un-audited financial results for the quarter ended on 30^{th} June, 2020 of the Company.

Ref.: Sarda Proteins Ltd, Scrip Code: 519242, Security ID: SRDAPRT.

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Un-audited financial results for the quarter ended on 30th June, 2020 published by the Company in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) Newspaper on 04th September, 2020.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you, Yours faithfully,

FOR SARDA PROTEINS LTD.

Company Secretary AMIT KUMAR MODI COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER M. NO.: 29371

Encl. a/a

FINANCIAL EXPRESS VISHVAS PROJECTS LIMITED

(Formerly Known as Mefcom Agro Industries Ltd.) Reg. Office: Flat- 1106, 11™ Floor Padma Tower-I, Rajendra Place New Delhi - 110008 CIN NO: L65921DL1983PLC016382

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Outside Retreat Motel, Alipur, Main G.T. Road, Near Palla Mod, Delhi-110036 on Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 A.M. to transact the Business, as set out in the Notice In compliance with Section 108 of the Companies

Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting. The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been dispatched to all Members at their registered address or email ids on 01st September, 2020 and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depositary Limited (NSDL) at https:// evoting.nsdl.com

The remote e-voting period commences on 23' September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 25° September, 2020 (5.00 P.M). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Friday, 25th September, 2020 (5.00 P.M).

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 19th September, 2020 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e voting or voting at the AGM by poll.

A person who has acquired shares and becoma member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth it the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The facility for voting, on a Ballot paper shall be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or

on toll free number provided by NSDL 1800222990. In case of grievances/difficulties, Members may also contact M/s. Link Intime India Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agents of the Company Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September, 2020 to 25th September

write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact

Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours

By Order of the Board

VISHVAS PROJECTS LIMITED

(Formerly Known As Mefcom Agro

Particulars

other comprehensive income for the period) after tax

Earnings per Equity Share (of Face Value Rs. 10 each)

Net profit/(Loss) for the period(before tax, exceptional and extraordinary items)

Net profit/(Loss) for the period before tax(after exceptional and extraordinary items)

Net profit/(Loss) for the period after tax(after exceptional and extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) and

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance

Paid Up Equity Share Capital, Equity Shares of Face Value Rs. 10 each

recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

Total Income from operations

Sheet of the previous year

Date: 02nd September, 2020

(1) Basic

Place: Jaipur

(2) Diluted

Industries Limited) Date: 03/09/2020 Kishori Prasad Gupta Place : New Delhi

before the Meeting.

REG. OFFICE: 303, 2nd FLOOR, PLOT NO.13-A, VEER COMPLEX, VEER SAVARKAR

BLOCK, SHAKARPUR, DELHI-110092 CIN NO: L74899DL2003PLC122266 MAIL ID: amsonsapparels@yahoo.com WEBSITE: www.amsonsapparels.com Notice is hereby given that 17th Annual General

Meeting (AGM) of the Company will be held at

AMSONS APPARELS LIMITED

Khasra No. 4/11, Village Malikpur Zer, Tehsil Najafgarh, Delhi-110043 on Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 A.M. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. The said Notice along with the Proxy Form Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been dispatched to all Members at their registered address or email ids on 01st September, 2020 and the same is also available on the website of the Company at www.amsonsapparels.com and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depositary Limited (NSDL) at https:// evoting.nsdl.com

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting. The remote e-voting period commences on 23rd

September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 25th September, 2020 (5.00 P.M). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Friday, 25th September, 2020 (5.00 P.M). The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 19th September, 2020 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by poll.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The facility for voting, on a Ballot paper shall be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote eoting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact on toll free number provided by NSDL 1800222990 or contact National Securities Depository Limited Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013. In case of grievances/difficulties, Members may also contact M/s. Beetal Financial & Computer

Transfer Agents of the Company. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share from 22nd September, 2020 to 25th September, 2020 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020.

Services Pvt. Limited, the Registrar and Share

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting. By Order of the Board

AMSONS APPARELS LIMITED Sd/-Augusteen Kachhap Director

Date: 03/09/2020 Place: New Delhi SARDA PROTEINS LIMITED

CIN: L15142RJ1991PLC006353 | Phone: +91-7737822222 | E-Mail: sardaproteins@yahoo.com | Website: www.sardaproteins.com

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED

ON 30TH JUNE, 2020

Note: (a) The above is an extract of the detailed Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 filed with

the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

format of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 are available on Company's website

www.sardaproteins.com) and on Stock Exchange's website (www.bseindia.com). (b) The above results were reviewed by the

Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 02nd September, 2020. The Statutory

auditors have conducted a limited review of the above Un-audited Financial Results and the same along with limited review report

of the auditors has been filed with Stock Exchange. (c) This statement has been prepared in accordance with the Companies

(Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other

Three

Months

ended on

30.06.2020

Un-audited

2.01

(4.11)

(4.11)

(4.11)

(4.11)

172.59

(0.24)

(0.24)

INCEPTUM ENTERPRISES LIMITED Formerly Known As Angels Enterprises Ltd) Regd. Office: Office No.JF-01, Property No. F-40 Jagatpuri, Delhi - 110040 Email: angelsenterpriseslimited@yahoo.com Website: www.angelsenter.com CIN:L51909DL1990PLC042445

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at FORM NO. INC-26

(Pursuant to rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspape

for change of registered office of the company

from one state to another

Before the Central Government

Northern Region

n the matter of sub-section (4) of Section 13

rule (5) of rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

In the matter of

M/S. ZYXEL TECHNOLOGY INDIA

PRIVATE LIMITED

(CIN: U72900DL2006PTC196827)

having its registered office at Regd. Office: 107, F-14, Competent House, 1st Floor, Middle

Circle, Connaught Place, New Delhi-110001

lotice is hereby given to the General Public that

the company proposes to make application to

companies Act, 2013 seeking confirmation of

Iteration of the Memorandum of Association of

the Company in terms of the special resolution

passed at the Annual General Meeting/ Extra

rdinary general meeting held on 23" JUNE 2020

enable the company to change its Registered

Office from "National Capital Territory of Delhi"

ny person whose interest is likely to be affected

the proposed change of the registered office

the company may deliver either on the MCA-

21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor

complaint form or cause to be delivered or send

y registered post of his/her objections supported

by an affidavit stating the nature of his/her interest

nd grounds of opposition to the Regiona

irector at the address B-2 WING, 2nd FLOOR.

PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW

DELHI - 110003 within fourteen days of the date

of publication of this notice with a copy to the

applicant company with a copy of the applicant

ompany at its registered office at the address

JBM D

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

CIN: L29130DL1987PLC027342

Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers

89, Nehru Place, New Delhi - 110 019

Ph.: 011-26427104; Fax: 011-26427100

E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI

Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, Notice

is hereby given that a meeting of the Board

of Directors of the Company is scheduled

to be held on 10" September, 2020 to

consider and approve, inter-alia, the

inaudited Financial Results of the

Company for the First Quarter ended 30th

The above details of the said meeting are

also available on the Company's website at

Exchange websites at www.bseindia.com

Further, as per the Company's Code or

Conduct for Prevention of Insider Trading

the trading window for dealing in shares or

the Company is closed for Directors

Officers / designated employees of the

www.jbmgroup.com and on the Stock

and www.nseindia.com.

June, 2020.

For and on behalf of the Applicant M/S. ZYXEL TECHNOLOGY INDIA

PRIVATE LIMITED

SHUN I CHU

Director

o "State of Uttar Pradesh"

entioned above

the Central Government under section 13 of the

Petitioner

of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-

Khasra No. 60/11/20, Village Ujwa, Najafgarh Tehsil, Delhi - 110043 on Saturday, 26° Day of September, 2020 at 09.15 A.M. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. n compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014, Members are provided with the facility to cast their otes on all resolutions set forth in the Notice of he AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote) -voting'), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business may

be transacted through such voting. The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia ontaining Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been dispatched to all Members at their registered address or email ids on 01st September, 2020 and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depositary Limited (NSDL) at https:// voting.nsdl.com

he remote e-voting period commences on 23rd September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 25th September, 2020 (5.00 P.M). During this period, Members may cast their vote electronically. The evoting module shall be disabled by NSDL hereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Friday, 25th eptember, 2020 (5.00 P.M). he voting rights of Members shall be in proportion o the equity shares held by them in the paid up

equity share capital of the Company as on 19th September, 2020 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cutoff date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote evoting or voting at the AGM by poll. A person who has acquired shares and become nember of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date is Date: 03.09.2020

eligible to cast vote on all resolutions set forth in Place : New Delhi the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person may obtain the login ID and password by sending all equest at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote -voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The facility for voting, on a Ballot paper shall be made available at the AGM and Members who

have not already cast their vote by remote eoting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact on toll free number provided by NSDL 1800222990. In case of grievances/difficulties Members may also contact M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, the Registrar and Share Transfer Agents of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22rd September, 2020 to 25th September. 2020 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorised

representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the By Order of the Board INCEPTUM ENTERPRISES LIMITED

(Formerly Known As Angels Enterprises)

Date: 03/09/2020 Vinaya prakash Place: New Delhi Director

Preceding | Corresponding

months

31.03.2020

Audited

190.59

13.43

13.43

(0.32)

(0.32)

172.59

(0.02)

(0.02)

three months

ended 30.06.

2019 in the

previous year

Un-audited

37.76

(7.29)

(7.29)

(7.29)

(7.29)

172.59

(0.42)

(0.42)

For Sarda Proteins Ltd.

Sd/- Amit Kumar Modi

Company Secretary & Compliance officer

M.NO.: 29371

Company from 1" July, 2020 until the end of 48 hours after the results are made Regd. Office: B-536-537, Matsya Industrial Area, Alwar - 301030 (Rajasthan) public on 10" September, 2020. Corporate office: Inside Data Ingenious Global Limited, Station Road, Durgapura, Jaipur-302018 (Rajasthan)

(In Lakhs

Previous

Year Ended

31.03.2020

Audited

548.05

17.04

17.04

3.29

3.29

172.59

0.19

0.19

for JAY BHARAT MARUTI LIMITED Place: Gurugram (Ravi Arora) Date: 2" September, 2020 Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

(Incorporation) Rules, 20141 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government The Regional Director, Northern Region

FORM NO. INC-26"

Pursuant to rule 30 the Companies

New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Friends Capital Services imited having its registered office at Plot No. A-23, Gate No: 01, Patrakar Puram Colony Gilat Bazar, Varanasi -221002, Uttar Pradesh Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to

the Central Government under section 13 of

the Companies Act, 2013 seeking confirmation

of alteration of the Memorandum of Association

of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 18th February, 2020 to enable the company to change its Registered Office from The State of Uttar Pradesh to The National Capital Territory of Delhi' Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office f the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of is/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern

legion, B-2 Wing, 2nd Floor Pt. Deen Dayal Antyoday Bhawan, CGO Complex, New Delhi -10003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address Plot No. A-23, Gate No: 01, Patrakar Puram Colony Gilat Bazar, Varanasi -221002, U.P.

For Friends Capital Services Limited

download by the members.

Sanjeev Kumar Singh Place: Varanasi Managing Director DIN: 002066595 Date: 25.08.2020

ARAVALI SECURITIES AND

FINANCE LIMITED

CIN:L67120HR1980PLC039125

Registered Office: Plot no. 136, Fourth Floor, Rider House,

Sector 44, Gurgaon-122003, Haryana

Email: info@aravalisecurities.com Website: www.aravalisecurities.com

Phone no.: +91-124-4556677 Fax: +91-124-4556677

NOTICE OF 40™ ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the members of

Aravali Securities and Finance Limited will be held via Video Conferencing (VC) /Other

Audio Visual Means (OAVM), on Wednesday, the 30th September, 2020 at 11.00 a.m. to

transact the business, as set out in the Notice of AGM. In view of the ongoing lockdown

due to COVID-19 and social distancing norms to be followed, the Ministry of Corporate

Affairs ('MCA') has vide General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with the

General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated

April 13, 2020 and SEBI vide its Circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated

May 12, 2020 (collectively referred to as 'Applicable Circulars') have given various

relaxations including holding of the AGM through VC/ OAVM. Pursuant to the Applicable

Report for the Financial Year 2019-20 and Notice of the 40" AGM are being sent in

electronic mode to Members whose e-mail addresses are registered with

Company/Depository Participant (s). The soft copies of the Annual Report of the

Company for the financial year ended March 31, 2020 and the Notice of the Annual

General Meeting is available on the Company's website www.aravalisecurities.com for

NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of

the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing

Agreement that the Register of Members and Share Transfer Books of the Equity

Shareholders of the Company will remain closed from Thursday, the 24th September

2020 to Wednesday, the 30" September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of

NOTICE is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies

Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and

Clause 35B of the Listing Agreement that the Company has offered remote e-voting facility

for transacting all the business through National Securities Depository Ltd. (NSDL) through

their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically.

The remote e-voting period commences on Sunday, the 27th September, 2020 (9.00 a.m.)

and ends on Tuesday, the 29th September, 2020 (5.00 p.m.). No e-voting shall be allowed

beyond the said date and time. During this period members' of the Company, holding shares

either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd September,

2020 may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and

becomes member of the Company after issuance of the notice and holding shares as of the

cut-off date i.e. 23rd September, 2020, will be provided the notice through mail after the cut-

off date and such members may also obtain the login ID and password by sending a request

at evoting@nsdl.co.in or RTA, Skyline Financial Services Private Limited. However, if the

member is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing

user ID and password for casting the vote. The remote e-voting module shall be disabled by

NSDL for voting thereafter. Members who are participating in the meeting through Video

Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on September 30, 2020 can cast their

vote during the meeting electronically on the business specified in the notice of the AGM

dated August 25, 2020 through electronic voting system (E- Voting) of NSDL. However only

those Members/shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and

have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise

In case you have any queries or issues regarding the voting in any of the above form, you

may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for

members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact

The detailed procedure intimations for remote e-voting are contained in the Notice of the

AGM. Any query/grievance relating to remote e-voting can be addressed to Ms. Ruchi

Shrivastava, Company Secretary, Plot no. 136, Fourth Floor, Rider House, Sector-44

Gurgaon-122003, Haryana, Phone no.:+91-124-4556677 Fax: +91-124-4556677

By order of the Board

Ruchi Shrivastava

New Delhi

Company Secretary

For Aravali Securities & Finance Limited

not barred from doing so, shall be eligible to vote through E Voting system in the AGM.

NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

Email:companysecretary@aravalisecurities.com.

Place : Gurgaon

Date: 25.08.2020

taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

irculars and due to the difficulties involved in dispatching physical copies, the Annua

FORM NO. URC-2 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the **Companies (Authorised to Register)** Rules, 2014]

. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Delhi that HA Cotspin LLP, a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

2. The Principal objects of the Company are as follows:

Manufacture of textiles and allied activities . A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the office at 114, Ground Floor, Golf Links, New Delhi-110003. . Notice is hereby given that any person

objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Dated this 4th day of September, 2020

> Name(s) of Applicant 1. Anupama Dugga 2. Anshu Kapoor

FORM NO. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NORTHERN REGION

In the matter of Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of M/S SAFETY PLUS POWER LIMITED CINU74920DL2007PLC170640) having its registered office at Unit No.222, Second Floor Living Style Mall, Pocket-6, Jasola Vihar, New Delhi, Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 readwith aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24.08.2020 to enable the company to give effect for such conversion Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status

of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office address & Mr. Vijay Kumar Sharmal Practicing Company Secretary, VS ASSOCIATES at A-52, Lower Ground Floor, Nirman Vihar, Delhi- 110092. For and on behalf of the Applicant

SAFETY PLUS POWER LIMITED Date: 24.08.2020

Place: New Delhi Afzal Khan (Whole Time Director & CEO) DIN: 01138131 Registered office address: Unit No.222, Second Floor Living Style Mall, Pocket-6, Jasola Vihar, New Delhi, South Delhi -110025 India

FRICK INDIA LIMITED Regd. Office: 21.5 Km, Main Mathura Road, Faridabad - 121003

CIN -L74899HR1962PLC002618, e-mail-fbd@frickmail.com Ph. 0129-2275691-94, 2270546-47 Fax: 0129-2275695 Web: www.frickweb.com NOTICE NOTICE OF THE 57th ANNUAL GENERAL MEETING.

CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that: The 57th Annual General Meeting (AGM) of Frick India Limited ('the Company') will

be held on Saturday, September 26, 2020 at 11:00 A.M., at 21.5 K.M., Main Mathura Road, Faridabad - 121003 Haryana, through VC/ OAVM, to transact the business as set out in the notice convening the 57th Annual General Meeting. Electronic copies of the Notice of the 57th Annual General Meeting and the 57th Annual

Report of the Company for the Financial Year 2019-20 have been sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants. The same are also available on Company's website at www.frickweb.com and on the website of Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent at www.linkintime.co.in. As mentioned in the newspaper notice dated July 07, 2020 published by the Company in Financial Express and in Hari Bhumi newspapers on July 07, 2020, since the Annual General Meeting is being conducted through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means, hence, there will be no physical dispatch of Notice and the Annual Report.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide facility of remote e-voting to its members to cast their votelectronically from a place other than the AGM on all resolutions set forth in Notice. A member may participate in the meeting even after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the

cut-off date of September 19, 2020, shall be entitled to vote by remote e-voting or at the AGM. All the Members are informed that: a. Date and time of commencement of Remote E-voting: from Wednesday, September 23, 2020 at 10:00 A.M.

Remote E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Friday, September 25, 2020.

Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means under remote e-voting or at the 57th A.G.M. is Saturday, September 19, 2020.

Members who have acquired shares of the Company after Friday, August 28, 2020 (which is the date of electronic dispatch of the 57th A.G.M. Notice to the Shareholders) and up to the cut-off date mentioned above, may obtain their login details for remote e-voting by sending request at cs@frickmail.com (Company Secretary) or at enotices@linkintime.co.in being the Share Transfer Agent a

the address and contact details mentioned below. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the 57th Annual General Meeting through e-voting system. Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members of Frick India Limited will remain closed for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the

26, 2020 (both days inclusive). The dividend, if approved, will be payable to those members, whose names stands registered in the Company's Register of Members as on Cut-off date. For electronic voting kindly log on to e-voting website https://instavote.linkintime.co.in please read the instructions given in the Notes to the Notice of the 57th AGM carefully

Financial Year 2019-2020 from Sunday, September 20, 2020 to Saturday, September

before voting electronically. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://

instavote.linkintime.co.in, under help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan on: Tel: 022 -4918 6000. Members may also contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at: Link Intime India Pvt. Limited, Noble Heights, 1rt Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi -110058, Tel: +91 11 49411000, +91-11- 41410592/93/94

Telefax: 011-41410591, Email: delhi@linkintime.co.in For and on behalf of the Board of Directors

FRICK INDIA LIMITED

Place: Faridabad Date: September 03, 2020

Amit Singh Tomar Company Secretary Membership No. A46813

and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the Bank's ability to continue as a going concern and using the Bank's ability to continue as a going concern and using the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may

involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management. Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's

report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards From the matters communicated with those charged with those charged with governance, we determine those matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

As required by Section sub-section 3 of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that: We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

The transactions of the Bank, which have come to our notice during the course of our audit, have been within the powers of the Bank;

During the course of our audit we have visited 5 branches to examine the books of account and other records maintained at branch and performed other relevant audit procedures. Since the key applications integrated to the core banking system, the audit is carried out centrally as all the necessary records and data required for the purposes of our audit are available therein

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit; b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books;

The Balance Sheet, the Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account; C) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the Reserve Bank of India; d)

On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197 of the Companies Act, 2013 do not apply; g)

With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial statements - Refer Schedule 12 and Schedule 18 (26.6) to the financial statements;

There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

For MSKA & Associates **Chartered Accountants**

1CAI Firm Registration No. 105047W

Swapnil Kale Partner Membership No.117812 UDIN: 20117812AAAAGA5061

Mumbai





b) C)

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A".

The Bank has made provision as at March 31, 2020, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts as at March 31, 2020;

2014 के नियम 4(1) के अनुसार] एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार अबसे पन्द्रहवें दिन के पश्चात किन्तु तीस दिन से अधिक नहीं, तक रजिस्ट्रार दिल्ली के पास एक आवेदन किये जाने का प्रस्ताव है कि एचए कॉटस्पिन एलएलपी, एक एलएलपी, को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाये।

कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: टेक्सटाइल्स विनिर्माण एवं अनुषंगी गतिविधियाँ। प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति कार्यालय 114. भृतल, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003 पर निरीक्षित की जा सकती है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्टार के पास सेंटल रजिस्टेशन सेंटर (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7 एवं 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गरुग्राम (हरियाणा) पिन-122050 पर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी आपत्तियाँ इस सुचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है।

दिनांक : 4 सितम्बर, 2020

आवेदक(कों) के नाम 1. अनुपमा दुग्गल

JBM O जय भारत मारूति लिमिटेड CIN: L29130DL1987PLC027342 पंजी. कार्यालयः 601 हेमकृत चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फोन: 011-26427104; पैकस: 011-26427100

E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में एतदहारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 10 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ कंपनी के 30 जन, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उनका अनुमोदन

उक्त बैठक का उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा

इसके अलावा, इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनरूप कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो कंपनी के निदेशकों / अधिकारियों / पदनामित कर्मचारियों के लिये 1 जुलाई, 2020 से 10 सितंबर, 2020 को परिणाम सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने तक के लिये बंद रहेगी।

कृते जब भारत मारूति लिमिटेड (रवि अरोड़ा) कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम तिथ्य : 2 सितंबर, 2020

इन्टरवर्ल्ड डिजीटल लिमिटेड CIN- L72900DL1995PLC067808 पंजी. कार्यालयः 701, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

बोर्ड की बैठक की सूचना सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) जाता है कि निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार 11 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के अलावे विचार.

उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.interworlddigital.in तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इन्टरवर्ल्ड लिमिटेड के लिये

तिथि: 4.9.2020 कम्पनी सचिव स्थानः नई दिल्ली सदस्यता सं.:A61069

CIN:L74899HR1994PLC072042 पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 345,

बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा- 124507 ई-मेल आईडी: bpcapitallimited@gmail.com फोनः 01276-222501, 02, फैक्सः 01276-222501 बोर्ड की बैठक की सूचना सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा)

विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मे आयोजित की जायेगी जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के अलावे विचार, अनमोदन एवं स्वीकृत किये जायेंगे। उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.bpcapital.in तथा बीएसई की वेबसाइट अर्थात

> बोर्ड के आदेश से बी.पी. कैपिटल लिमिटेड के लिये हस्ता.

तिथि: 4.9.2020 प्रबंध निदेशक स्थानः हरियाणा DIN: 00047724

आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड

बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 Email.id: rcccementslimited@gmail.com Tel: 91-11-43571044, Fax: 91-11-43571047 बोर्ड की बैठक की सुचना सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा)

विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित www.rcccements.com तथा बीएसई की

वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। आरसीसी सीमेन्ट्रस लिमिटेड के लिये अमनप्रीत कौर कम्पनी सचिव

सदस्यता सं. ए 57143

पंजी. कार्यालय: 820, अंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 ईमेलः secretarialreplurbanplanners.com वेबसाईटः www.repl.global

विडियो कान्फ्रेंस (वीसी) अन्य ऑिडयो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा 28 सितम्बर, 2020 को

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी साधारण सर्क्यूलर नं. 20/2020, 14/2020, 17/2020 तथा लागू होने वाले अन्य सभी कानुनों तथा सर्क्यूलर्स के अनुपालन में कम्पनी की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. में विडियो कान्फ्रैंस वीसी/ अन्य ऑडियो-विज्ञअल माध्यमीं

इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। 28वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.repl.global तथा एनएसई ईमर्ज की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति) आधार, आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराते हुए ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये info@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट अर्थात् स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें। यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में धारित हो तो कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल आईडी तथा बैंक खाता के विवरणों को पंजीकृत कराएें।

शेयरधारकों से अनरोध है कि अपने डिपॉजिटरीज (जहां शेयर डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में धारित हैं) तथा कम्पनी के आरटीए अर्थात स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (जहां शेयर भौतिक पद्धित में धारित है) के पास विवरणों: क) बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें आप भविष्य में यदि भुगतान हो, लाभांश प्राप्त करने के इच्छुक हों), ख) बैंक खाता का प्रकार, ग) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स लागू करने के बाद उनके बैंक द्वारा आवंटित बैंक खाता संख्या, घ) 9- डिजिट का एमआईसीआर कोड नम्बर), ड) 11- डिजिट का आईएफएससी कोड तथा, च) प्रथम शेयरधारक के नाम से युक्त निरस्त चैक की गई स्कैन की गई प्रति जैसे सम्पूर्ण विवरणों के साथ info@skylinerta.com पर अपने बैंक के सम्पूर्ण विवरणों को अपडेट कराएें। 28वीं एजीएम की सूचना नियत समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर लागू होने वाले कानूनों के अनुसार

निदेशक मंडल के आदेश से रुद्राभिषेक एन्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

तिथि: 2.9.2020

लैण्डमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

2015 तथा उसके अंतर्गत जारी सर्क्युलर्स के लागु होने वाले प्रावधानों के अनुपालन विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो बिजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

इलेक्टॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकृत हैं।

सहर्ष उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार है:

एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा

निष्पादित किया जा सकता है। ्रिपोर्ट ई–वोटिंग 26 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पर्वा. में शरू होगी।

रिमोट ई-वोटिंग 28 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथि 22 सितम्बर,

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2020 को शेयरधारित करते हों, वे evoting@nsdl.co.in पर अनरोध भेजकर यजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र द्वारा एजीएम में मतदान ई-वोटिंग जैसी दोनों सविधाओं को प्राप्त करने के लिए

एजीएम की सचना कम्पनी की वेबसाईट तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाईट

पूछताछ के लिये सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री 24994559 से सम्पर्क करें जहां वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे। सदस्यों का रजिस्टर बंद होना

के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 23.09.2020 से 29.09.2020 (दोनों दिवस सहित) तक ऊपर वर्णित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाने वाली 44वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे

नई दिल्ली **3 सितम्बर, 2020** कम्पनी सचिव | सी-97, भू तल, लाजपत नगर-II, नई|

पंजीकृत कार्यालय : 1101, सूर्य किरण, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 दरभाष : 011-23722596-8 फैक्स : 011-23312990

ईमेल : clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेबसाइट : www.hotelclarks.com

के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनमोदन करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट

www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान : नर्ड दिल्ली प्रकाश चन्द्र प्रष्टी तिथि : 03.09.2020 (कम्पनी सचिव

CIN: L65910DL1990 PLC040705

पंजीकृत कार्यालयः 4, एमएमटीसी/ एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेट कार्यालय: 315, तीसरा तल, स्क्वॉयर वन मॉल, साकेत, नई दिल्ली-110017 टेली. नं. 011-26691132 ईमेल: gopalbishtgfcl@gmail.com

भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 ^ह साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड रं निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को 4, एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजिल न दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 5.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों ऑडिटरों द्वारा दी गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख

पुनः भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो कम्पनी के सभी निदेशकों/अधिकारियों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये शक्रवार. 3 जलाई. 2020 से बंद हैं तथा वित्तीय परिणामों के प्रकाशन को सार्वजनिक करने के 48 घंटे बाद खलेंगे। उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट http://genesisfinacne.net पर भी उपलबध हैं तथा साथ हीं स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.msei.in पर भी देखी जा सकती है।

जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिख

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 3.9.2020

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 5140-41/34, एफ/एफ चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, र्रुड मंडी सदर बाजार. दिल्ली-110006

CIN: L27106DL1985PLC021811, फोन: 011-23551821 र-मेल आईडीः nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाईटः www.nirajispat.ir 35वी वार्षिक साधारण सभा की सचना

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 सितम्बर 2020 को 11.30 बजे पूर्वा. में 5140-41/34 एफ/एफ चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, रुई मंडी सद बाजार, दिल्ली-110006 में आयोजित की जायेगी जिसमें उक्त वार्षिक साधारण सभा के आमंत्रण सूचन में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई 2020 तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 तक लागु होने वाले सर्क्युलर्स के साथ पठित सेर्ब (सुचीयन तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (सामृहिक रूप से ''संबधित सर्क्यूलर्स'' वर्णित) काईलाइन फाइनोसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद 'आरटीए' वर्णित) के पास पंजीकृ हैं। जिन सदस्यों का ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे ध्यान रखें कि सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019 ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर क्रमशः पर भी उपलब्ध होगा। ई मेल पते के पंजीकरण/ अद्यतन कराने का तरीका:

क) भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते पंजीकृत अद्यतन नहीं कराये हों, से अनुरोध है कि compliances@skylinerta.com पर अथव http://www.skylinerta.com/ Emailreg.php पर क्लिक कर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथ शेयर अंतरण एजेन्ट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद 'आरटीए वर्णित) के पास उसे पंजीकृत/ अद्यतन करा लें।

पास अपने ई मेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं कराये हों, से अनुरोध है कि जिसके साथ वे अपनी डीमैट खाताऐं प्रबंधित करते हैं, उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ई-मेल पत

सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम शामिल होने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य 011-23551821, ई-मेल आईडी: nirajispatindus tries@gmail.com पर कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स, मै. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय डी-153 ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में है, सम्पर्क का विवरणः टेली.: 011-40450193 से 197 एव 26812682-83 पर सम्पर्क करें अथवा compliances@skylinerta.com पर ईमेल अनुरोध

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

तिथि: 3.9.2020

पद नामः निदेशक पताः केडी-46, कवि नगर, गाजियाबाद 201002

(भारत सरकार का उपक्रम) पंजी. कार्या.: प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कॉमा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली-110066, सीआईएनः L74999DL2003GOI118633, ई-मेलः investors@rvnl.org. वेबसाइटः www.rvnl.org, दूरमाष नं.: 011-26738299, फैक्सः 011-26182957

प्तेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) के विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के

विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29, 33 के अनुसरण में, एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020** को विडियो कानक्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें 30 जुन, 2020 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामीं (एकल एवं समेकित) पर विचार करने, अनुमोदन करने, तथा उसे रिकॉर्ड पर लेने की कार्रवाई की जाएगी।

चुकी है तथा 11 सितंबर, 2020 को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद समाप्त होगी यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्वेंजेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी के शेयर सुवीबद्ध है

कृते रेल विकास निगम लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 03.09.2020

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



ब्रिज एंड रूफ कॅ. (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उपक्रम) CIN No. U27310WB1920GOI003601 ''कंकरिया सेंटर'', (चौथा एवं पांचवा तल), 2/1, रुसेल स्ट्रीट, कोल-71

अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना (ईओआई)

'आयकर विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत गडाकना, भूवनेश्वर, ओड़िसा में आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए 115 रिहायशी स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण उप-शीर्षः इलैक्ट्रिकल वर्क, सैनिटरी एवं पल्मबिंग, फायर-फाईटिंग, लिफ्ट, लैंडस्केपिंग तथा अन्य विविध कार्यों के साथ सिविल कार्य'' से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित अर्द्धक मानदंड पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, संसाधन-संपन्न तथा अनुभवी पार्टियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आवेदन आमंत्रित किए किथ : 24.08.2020

इच्छुक बोलीदाता को सरकारी ई-खरीद प्रणाली https://eprocure.gov.in पर लॉगइन के माध्यम से नामाकंन एवं पंजीकरण करना होगा।

परिशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा, कंपनी वेबसाइट www.bridgeroof.co.in

तथा सीपीपी पोर्टलः https://eprocure.gov.in पर डाला जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 18.09.2020 को या उससे पूर्व

Rajasthan Olive Cultivation Limited ROCL (Joint Venture of Govt. of Rajasthan)

State Institute of Agriculture Management Campus, Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018, Rajasthan (India), Ph.91-0141-2554106, Web: www.rajolive.com, Email: rocl@rajolive.com, CIN: U01122RJ2007PLC024246

निविदा सूचना No. F(387)/ROCL/2020-21/1489

Jaipur, dated : 26.08.2020

(एस.एस. शेखावत), मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के समस्त जैतन फार्मों व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी पर विभिन्न किष कार्य टास्क बेसिस पर तथा कंपनी मुख्यालय विभिन्न जैतून फार्मों व सेंटर ऑफ एक्सीलेंसे बस्सी पर जॉब बेसिस पर कार्य करवायें जाने है। उक्त कार्यों हेत फर्म/कंपनी/ सोसाइटी/आदि से निविदा/दरें दिनांक 16.09.2020 को दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। कम्पनी वेबसाईट www.rajolive.com या https://sppp.rajasthan.gov.in से सीधे डाउनलोड करके निविदा शुल्क के साथ भी निविदा प्रस्तुत कर सकते है। निविदाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत राशि रु. लाख में	बयाना राशि रु.	निविदा फार्म शुल्क राशि रु.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के समस्त जैतून फामोँ पर टास्क बेसिस कार्य	31.50	63000	1000	16.09.2020 दोपहर 2.00 बजे तक	16.09.2020 दोपहर 3.00 बजे तक
2	राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी पर टास्क बेसिस कार्य	33.00	66000	1000		
3	राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के समस्त जैतून फार्मों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी व मुख्यालय जयपुर पर जॉब बेसिस कार्य	45.00	90000	1000		

निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास स्रक्षित है।

तेलंगाना में संदिग्ध माओवादी की मुठभेड़ में मौत

हैदराबाद, 3 सितंबर (भाषा)।

तेलंगाना पुलिस ने गुरुवार तड़के भद्राद्री-कोथागुडेम जिले में हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध माओवादी को मार गिराया।

पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ तड़के करीब सवा चार बजे गुंडाला मंडल में वाहनों की जांच के

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड निगम एवं पंजी. कार्यालय : महानगर दूरसंचार सदन, पंचम तल, ९, सीजीओ कॉम्प्लंक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सेबी (एलओडीआर), 2015 के नियम 47 के अनुसार एतदहारा सूचना दी जाती है कि महानग

टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 15 सितंबर, 2020 को होंग

जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित

पुनरीक्षित वित्तीय परिणाम पर विचार होंगा तथा उन्हें रिकॉर्ड में लिया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि एमटीएनएल की ट्रेडिंग विंडो 01 जून, 2020 से 17 सितंबर 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी यह सूचना वेबसाइट www.mtnl.net.in पर भी अपलोड की गयी है। कृते महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली (एस.आर. सवाल), कंपनी सचिव दिनाकः ३१.08.2020

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1993PLC056652

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों, नियमों एवं विधिक प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 9.30 बजे पूर्वा. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजि कीजिए। सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पस्तिकाएँ एजीएम के उददेश्य से बृहस्पतिवार. 24 सितम्बर 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। इन परिपत्रों के अनुपालन वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सचना उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डीप के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों के पास एजीएम की सुचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य 2 सितम्बर. 202 को समाप्त कर लिया गया है। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भौतिक रूप से भेजने व आवश्यकता उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार समाप्त कर दी गयी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम परा करने के उद्देश्य से की

पंजीकृत कार्यालयः 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015

दूरभाषः +91-11-25928415, फैक्सः +91-11-25928416

ई-मेलः investors@valiantcom.com, वेबः www.valiantcom.com

कम्पनी एजीएम में प्रस्तावित होने वाले समस्त संकल्पों के लेन-देन पर लिंक इनटाइन इण्डिया प्राइवेट लिमिटे (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रावधानित सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार क उपयोग करने हेतु कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के उपलब्ध करायी जायेर्ग जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिय है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नर्ह होंगे। ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा सदस्यों द्वारा एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तुत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में उपलब्ध करायी गयी है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : 1. 27वीं एजीएम में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देने ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान है

2. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 (10.00 बजे पर्वा. भा.मा.स.) को पारम्भ होगी और मंगलवार 29 सितम्बर, 2020 (05.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग सर्विध एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी और संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनमति नहीं दी जायेगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान का पात्र होगा। . कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह investors@valiantcom.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और . सुचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.valiantcom.com तथा बीएसई लिमिटेड की

वेबसाइट www.bseindia.com तथा एलएलआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या इसके दौरान ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित कोई शिकायत है तो वे इरं instameet@linkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं अथवा +91 (022) 49186175 पर कॉल क सकते हैं। यह सूचना 22 अगस्त, 2020 को प्रकाशित पूर्व की सूचना दिनांक 21 अगस्त, 2020 की निरन्तरर

केपीएल इण्टरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन : U23209DL1974PLC029068

पंजीकृत कार्यालय : 212A, 216 तथा 222, दूसरी मंजिल, इन्द्रप्रकाश, 21,

बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : +91 11 43579200, फैक्स : +91 11 23717203

ई-मेल : infb@kplintl.com, वेबसाइट : www.kplintl.com

वार्षिक आम बैठक की सुचना

तद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सभी सदस्यों के पास भेजी जाने वार्ल

सूचना में निर्धारित प्रकार्य पर लेन-देन हेतु आयोजित होने वाली कम्पनी की 46र्व

वार्षिक आम बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय 212A, 216 तथा 222, दूसरी मंजिल,

इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 पर मंगलवार, 29 सितम्बर,

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित करने

हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट मामले मन्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन)

नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

मैसर्स सेफ्टी प्लस पॉवर लिमिटेड (सीआईएन U74920DL2007PLC170640) वे

मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 222, दूसरी मंजिल, लिविंग स्टाइल मॉल,

एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कम्पनी 24.08.2020 को आयोजित असाधारण

आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में निजी मर्यादित कम्पनी में परिवर्तित होने की

इच्छक है जिसके लिए वह उपर्यक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार

14 के तहत केन्द्र सरकार से आवेदन करने की इच्छुक है ताकि वह ऐसे परिवर्तन में सक्षम

कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपने

हित तथा विरोध की पष्ठभमि की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियं

या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर अथव

पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से

चौदह दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्द कर सकते हैं और इसकी एक

प्रति आवेदक कम्पनी को उनके पंजीकृत कार्यालय श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यरत कम्पर्न

सचिव, वीएस एसोसिएट्स, ए-52, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली-110092 के

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 222, दूसरी मंजिल, लिविंग स्टाइल मॉल,

पॉकेट-6, जसोला विहार, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110025 भारत

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर र

(पर्णकालिक निदेशक तथा सीईओ)

सेफ्टी प्लस पॉवर लिमिटेड

डीआईएन : 01138131

अफजल खान

पॉकेट-6, जसोला विहार, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110025 पर है।

2020 को 3.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी।

स्थान : नई दिल्ली

विनांक : 04.09.2020

पते पर भी भेजेगा।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 03 सितम्बर, 2020

कृते वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेः

बोर्ड के आदेशानुसा

सुरिन्दर कुमार काक

मनीष कुमा आईसीएसआई सदस्यता सं. A1648

दौरान हुई। भद्राद्री-कोथागुडेम जिले के पुलिस अधीक्षक सुनीत दत्त के अनुसार माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद बीते कुछ दिन में जिले में निगरानी बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि बुधवार को पुलिस को हथियारों से लैस माओवादियों के मोटरसाइकिल पर स्थानीय इलाकों में घूमने की जानकारी मिली थी।

एसपी ने कहा, 'सूचना के आधार पर पुलिस टीमें वाहनों की जांच कर रही थीं। गुरुवार तडके करीब सवा चार बजे जांच के दौरान पुलिस की एक टीम ने बाइक सवार दो लोगों को देखा और रोकने की कोशिश की।' वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस दौरान उन्होंने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर गोली चलाई। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे एक संदिग्ध माओवादी की मौत हो गई।

आईएनसी-26 [कंपनीज (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामलें में

केंद्रीय सरकार के समक्ष

जिजोन जेम्स एंड जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:- U36910DL2006PTC144318) जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप न0. जी-12ए, जी/एफ, प्लॉट न0. एच-3, वर्घमान प्लाजा, एनएसपी, पीतमपुरा, दिल्ली, उत्तरी पश्चिम 110034 आईएन के मामलें में।

. वाचिकाकर्ता एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के रा.रा.से. से हरियाणा राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 03.09.2020 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में

परिवर्तन करने की वाचिका प्रस्तृत किया जाना

प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता 🕏 या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, के पते **बी-2** विंग, 2 पलोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा स्चित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी

शॉप न0. जी−12ए, जी ⁄ एफ, प्लॉट न0. एच−3, वर्धमान प्लाजा, एनएसपी, पीतमपुरा, दिल्ली, उत्तरी पश्चिम 110034 आईएन

कृते और आवेदक की ओर से जिओन जेम्स एंड जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड

अजय कुमार कसंल (निदेशक) विधि: 03.09.2020 (DIN-03504205)

क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट मामले मन्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी

गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय

टी-5 एवं 6, 4754/57/23, आकर्षण भवन, 23-अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली

एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कम्पनी 29 अगस्त, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में निर्ज मर्यादित कम्पनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है जिसके लिए वह उपर्युक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केन्द्र सरकार से आवेदन करने व

इच्छुक है ताकि वह ऐसे परिवर्तन में सक्षम हो सके। कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपन हित तथा विरोध की पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपर्न आपत्तियाँ पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

स्थानः नई दिल्ली

डीआईएन: 0025604

गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड

(निदेशक) डीआईएन-0675169

पताः बी-201, सिसपाल विहार, सेक्टर-49, गुरुग्राम-122018 हरियाण

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशनार्थ विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में

एलएण्डई इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U34201DL2007{TC158920), के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय 326, प्रथम तल, एफ.आई.ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, पूर्वी दिल्ली-110092 में स्थित है

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे. दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में स्थानान्ति करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के सम्बन्ध में 27 अगस्त, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्ध

ै के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की याचना हेत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार (क्षेत्री िनिदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। 🛮 कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथ विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टर्

(www.mca.gov.in) पर सपर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पता बी-2 विंग, हितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योद भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर सुपूर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृ 📗 डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए : 📕 पंजीकृत कार्यालयः 326, प्रथम तल, एफ.आई.ई., पटपडगंज इण्डस्टियल एरिया, पर्वी दिल्ली-110092 कृते एलएण्डई इण्डिया प्राइवेट लिमिटे तिथि: 03.09.2020

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

पंजी. कार्यालय : बी-536-537, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) फोन : +91 7737822222 कॉर्पोरेट ऑफिस : डेटा इनजीनियस ग्लोबल लिमिटेड के अन्दर, स्टेशन रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, राज़. ई-मेल : sardaproteins@yahoo.com येवसाईट : www.sardaproteins.com सीआईएन : एल15142आरजे1991पीएलसी006353

30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तय परिणामों के विवरण का सार (लाख में पिछले वर्ष पिछला विमाही समाप्त तिमाही वर्ष समाप्त विवरण 31.03.2020 30.06.2020 30.06.2019 31.03.2020 अंकेक्षित गैर अंकेकित गैर अंकेक्षित संचालन से कुल आय 190.59 37.76 2.01 अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले) (4.11)13.43 (7.29)17.04 अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं से बाद) (4.11)13.43 (7.29)17.04 अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं से बाद) (4.11)(0.32)(7.29)3.29 अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए व्यापक लाभ(हानि) और अन्य व्यापक आय) (4.11)(0.32)(7.29)3.29

भगतान किया हुआ इक्विटी शेयर पंजी एवं इक्विटी शेयर (अंकित मृल्य 10 /- रू. प्रति का) 172.59 172.59 172.59 172.59 आरक्षितयाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितयाँ छोड़कर) पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट आय प्रति शेयर (अंकित मृल्य 10/- रू. प्रति का) 1. मूल (0.24)(0.02)(0.42)0.19 2. तरल (0.24)(0.02)(0.42)0.19 टिप्पणी: (1) उपरोक्त30 जून, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए विस्तृत अन-ऑडिटेड किए गए वित्तीय परिणामों का एक उदाहरण है, जो सेवी के विनियमन 33 (सची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम. 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किया गया है, 30 जुन, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अन-ऑडिटेड विनीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.sardaproteins.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है ।(2) उपरोक्तपरिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई थी और निदेशक मंडल द्वारा 02

तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (Ind-AS), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार लागू किया गया है । सारवा प्रोटीन्स लिमिटेड हस्ता. अमित कुमार मोदी तिथि : 2 सितम्बर 2020 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान : जयपुर एम.च. 29371

सितम्बर 2020 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित की गई थी।वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त अन-ऑडिट किए गए वित्तीय परिणामों की सीमित

समीक्षा की है और उसी के साथ ऑडिटर्स की सीर्मित समीक्षा रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर की गई है। (3) यह कथन कंपनी अधिनियम(2013) के

www.readwhere.com

Email.id: interworlddigital.in@gmail.com Tel: 91-11-43571044-45, Fax No: 011-43571047

विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया अनमोदन एवं स्वीकृत किये जायेंगे।

शिवांगी अगरवाल

बी.पी. केपिटल लिमिटेड एचएसआईआईडीसी, फुटविअर पार्क, सेक्टर-17,

विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित डाऊस, फर्स्ट फ्लोर, मिडल सर्कल, कनॉट प्लैस, नई दिल्ली सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 13 के

www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी के रजिस्टीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से रमेश कुमार गुप्त यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइस कर

CIN- L26942DL1991PLC043776 पंजी. कार्यालयः 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19,

विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के अलावे विचार, अनुमोदन एवं स्वीकृत किये जायेंगे। उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट

तिथि: 31.01.2020 स्थानः नई दिल्ली

रूद्राभिषेक एण्टरप्राईजेज लिमिटेड CIN: L74899DL1992PLC050142

आयोजित की जाने वाली 28वीं वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के विषय में कम्पनी की इक्विटी शेयरधारकों

ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया उपरोक्त सर्क्यलर्स के अनुपालन में 28वीं एजीएम की सचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट की

यदि शेयर भौतिक पद्धति में धारित है तो शेयरधारकों से अनुरोध है कि फोलियो नं., शेयरधारक का नाम,

स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव

ई-मेलः info@landmarkproperty.in, वेबसाईटः www.landmarkproperty.in, CIN: L13100DL1976PLC188942, फोन नं.: 011-43621200, फैक्स नं.: 011-41501333 एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 44वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम)मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 10.30 बजे पूर्वा. में कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन

उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की

यह कंपनी सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने की सुविधा सदस्यों को

सदस्यगण ध्यान रखें कि क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद मे उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ख) एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन, फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा. वे ही

https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा सुश्री सिरता मोटे, सहायक प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in य saritaM@nsdl.co.in या sonis@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. 02224994600/ 022 24994890, 022-एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015

बोर्ड के आदेश रं हस्ता अंकित भाटिया कम्पनी हापुर मोटर फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय

दिल्ली-110024 में है, का नाम

परिवर्तन के मामले में

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सचित किया जाता है कि

कम्पनी ''हापुर मोटर फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड का

नाम कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार

आवश्यक प्रस्ताव पारित करने के बाद तथा भारतीय

रिजर्व बैंक, नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाणपत्र तिथि

13.8.2020 प्राप्त करने के बाद बदलकर ''विन्जेन

प्राईवेट लिमिटेड''

U65923DL1988PTC284663) कर दिया

गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-97, भूतल,

सभी स्टेकधारकों से अनुरोध है कि उक्त जानकारी

हापुर मोटर फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड के लिये

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

[कंपनी (निगमन) निपम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य

में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित

किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

उपनिवम (झ)छ के खंड (क)छ के मामले में

जेडएक्सेल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड

(CIN: U72900DL2006PTC196827)

जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 107, एफ-14, काम्पिटन्ट

आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय

अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताय करती है जिसमें कंपनी

का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' में स्थानांतरित

करने के लिए तारीख 20 जून 2020 को आयोजित वार्षिक

आम बठैक/असाधारण सामान्य बठैक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की

एमसीए-21 पोर्टस (www.mca.gov.in) में शिकायत

दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित

का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के

साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुबना के

प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग

द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई

दिल्ली - 110003 पते पर पंजीकृत डाक दुवारा भेज सकता

है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को

ऊपर उनके निम्नलिखित रिजस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर

इनसैप्टम इंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : ऑफिस न जेएफ-०1

सम्पत्ति सं. एफ-४०, जगतपुरी, दिल्ली-110040

वेबसाइट : www.angelsenter.com

सूचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की

पार्थिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 26

सितम्बर, 2020 को प्रातः 9.15 बजे खसरा

नं. 60/11/20, विलेज उजवा, नजफगढ

गएगी जिसमें एजीएम की सुधना में निधारित

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम

20 के साध पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

डेपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध

हें स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्टॉनिंग

वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम में लुबन

रविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के माध्या

सभी कामकाज निष्पादित किये जा सकता है।

कथित सुचना के साथ प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्च

और निर्देशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एवं लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से शामिल वार्षिक

विजीकृत पते या ई-मेल आईडी पर भेज दी गई

www.angelsenter.com पर भी उपलब्ध हैं तथा एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर

लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://

रिमोट ई-बोटिंग अवधि 23 सितम्बर, 2020

(प्रात : 9.00 बजे) प्रोरंग होगी और 25

सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे) बंद होगी

इस अवधि के दौरान. सदस्यगण अपना वोट इलेक्टॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा

ई-वोटिंग मॉडयुल हटा लिया जाएगा। शुक्रवार, 25

सेतम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे व्यवसाय घंटी

की समाप्ति के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नडी

2020 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त

इक्विटी शेयर पंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी

रोयरों के अनपीतिक होगा। कोई भी व्यक्ति ज

कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है. वह रिमोट

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता

हैं और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी

का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर

धारण करता है, वह रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम

बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम की

सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगडन

आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर संकता है। यदापि, यदि

तो वह रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने

के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की

पुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित

ाने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के

माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम में अपना वोट देने के पात्र होंगे। रिमोट

–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य

भी एजीएम में माग ले सकते हैं लेकिन चन्हें एजीएम

www.evoting.nsdl.com पर डेल्प सैक्शन व

भंतर्गत् उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक

भीर ई-वोटिंग मैनअल का अवलोकन कर सकते

या ई-मेल evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते या एनएसढीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री

1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं या श्र

नितिन एमबुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड-ए विंग, कमला

मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 रो

सम्पर्क कर सकते हैं। किसी भी शिकायत / समस्य

ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्र

रेंड शेयर टांसफर एजेंट से भी सम्पर्क कर सकते हैं

31 मार्घ, 2020 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए

कम्पनी की वार्षिक आम वैतक के प्रयोजन है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर

बुक 22 सितम्बर, 2020 से 26 सितम्बर

2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे

बैठक में माग लेने एवं वोट देने का हळदार व्यक्ति

जिनिधि के माध्यम से भी अपना वोट दे सकता है

बशर्ते कि सभी प्राक्सी के लिए निर्धारित प्रारूप / बैठक

में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा विधिवृत् सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से 49 घटे पूर्व

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया गया

दिनांक : 03.09,2020

(पुर्ववर्ती एंचल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड के रूप में

राजस्थान संवाद /सी / 4040 / 2020 - 2021

बोर्ड की आज्ञानुसार इनसैप्टम् इंटरप्राइजेज लिमिटेड

लिए सदस्यगण मैसर्स एमसीएस शेयर

में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबलाइर

उपयोग कर सकता है।

सदस्य पडले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत

-वोटिंग या एजीएम में मतदान द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है।

ी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि **19 सितम्बर**,

evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

रिपोर्ट 01 सितम्बर, 2020 को सभी सदस्यों

तहसील दिल्ली - 110043 में आयोजित

कामकाज का निष्पादन किया जीएगा।

\$—#⊲: angelsenterpriseslimited@yahoo.com

आवेदक की ओर से

जेडएक्सेल टेक्नोलीजी इंडिया लिमिटेड

110001 स्थित है, के मामले में

पुष्टि की मांग की गई है।

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल के आदेश

(निदेशक

(DIN: 05323225)

लाजपत नगर-II. नई दिल्ली-110024 में है।

तिथि: 31.8.2020

स्थानः नई दिल्ली

यु.पी. होटल्स लिमिटेड सीआईएन : L55101DL1961PLCO17307

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 3 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ–साथ 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी

कृते यू.पी. होटल्स लिमिटेड

जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

वेबसाईटः www.genesisfinance.net

कृष्ण राजेन्द्र दायम (कम्पनी सचिव

के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धित में ऐसे सर्भ सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई मेल पते कम्पनी/ कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, 20 कम्पनी की वेबसाईट www.nirajispat.in, स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचैंज

ख) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस ^ह

की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

नामः हरियंत कुमार चौधरी

(DIN: 00021795)

रेल विकास निगम लिमिटेड

पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा टेडिंग के विनिमयन तथा प्रतिवेदन के लिए आरवीएनएल आचार संहिता" के अनुसरण में ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि 1 जुलाई, 2020 से आरंभ हो

निविदा सं. B&R/HO/INCOME-TAX/51101/BBSR/EOI/CW/01